

अध्याय - 7

चुनमुन का सवाल

इन शब्दों के अर्थ लिखो-

- झूमना - खुशी से नाचना |
राज - रहस्य |
सताता - परेशान करना |
नटखट - शरारती |
मासूमियत - भोलापन |
चक्कर - चारों ओर घूमना
बौछार - पानी का तेज गति से गिरना |
मजेदार - मनोरंजन युक्त
वापिस - लौटना

सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाओ -

1. चुनमुन पत्तों के हिलने का राज जानना चाहती थी | ✓
2. चींटी ने चुनमुन को पत्तों के हिलने का राज बताया | X
3. झरने में पानी पीकर चिड़िया शहर की ओर चली चल पड़ी | X
4. चिड़िया ने देखा कुछ बच्चे रो रहे थे | X
5. चुनमुन हवा के बारे में जानकर बहुत खुश हुई | ✓

प्रश्नों के उत्तर लिखो :-

1. हवा का प्रयोग किन किन चीजों में किया जाता है ?
उत्तर- हवा का प्रयोग श्वास लेने , गुब्बारों में हवा भरने, उड़ने तथा सूखाने के काम में किया जाता है |
2. पत्तों के नीचे चींटी का दम क्यों उठ रहा था ?
उत्तर - पत्तों के नीचे चींटी को हवा नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह श्वास नहीं ले पा रही थी, इसलिए चींटी का दम घुट रहा था |
3. चुनमुन कैसे गीली हो गई ?

उत्तर- चुनमुन झरने की बौछार से गीली हो गई ।

4. मछली ने चुनमुन को देखकर का कहा क्या कहा ?

उत्तर - मछली ने चुनमुन को देखकर कहा तुम अपने पंखों को तेजी से हिलाओ कुछ देर हवा में खड़ी रहोगी तो सूख जाओगी ।

5. चुनमुन खिलाकर क्यों हँस पड़ी ?

उत्तर- चुनमुन को हवा के बारे में पता चल गया था , इसलिए वह खिलखिला कर हँस पड़ी ।

दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो :-

जमीन - पृथ्वी, धरती

फूल- सुमन, पुष्प

चंदा- चंद्रमा, शशी

पानी - जल ,नीर

सोना- निद्रा , शयन

सही जोड़ी मिलाओ -

मासूमियत

नटखट

पत्ते

एक सवाल

मेरा गुब्बारा

खेल रहे थे

से पूछा

गिलहरी

सबसे बड़ा

उसे सताता था

उत्तर - मासूमियत

नटखट

पत्ते

एक सवाल

मेरा गुब्बारा

से पूछा

गिलहरी

हिल रहे थे

उसे सताता था

सबसे बड़ा

इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो

ऊपर- नीचे

गीली- सूखी

खुश - उदास

ठंडी - गर्म

